

# मीरजापुर पुलिस

## प्रेस नोट

दिनांक: 29.07.2022

### मीरजापुर पुलिस द्वारा 02 अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 10 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा जनपद में वाहन चोरो की गिरफ्तारी एवं वाहनों की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा पूर्व की वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर वाहन चोर की गिरफ्तारी एवं वाहन की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष अहरौरा को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अन्तर्गत में थानाध्यक्ष अहरौरा संजय कुमार सिंह मय टीम देखभाल क्षेत्र व वाहन चेकिंग में मामूर थे कि इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए अदलहाट की तरफ से अहरौरा आ रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना अहरौरा पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग करते हुए कदारन चौराहे के पास से 02 मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों को रोककर वाहन सम्बन्धित कागजात मांगा गया तो उनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछताछ में मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने अपना नाम हरिशंकर मिश्रा उर्फ बब्ल मिश्रा पुत्र स्व0 आदया प्रसाद मिश्रा निवासी दुर्वासा का पूरा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर व राजा बाबू बिन्द पुत्र भोला बिन्द निवासी सुरहां थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर बताते हुए बरामद उक्त दोनो मोटरसाइकिलों को चोरी का होना बताया गया तथा उनके कब्जे से 02 अदद चोरी का एन्ड्रायड मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनो व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वे अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर जनपद मीरजापुर, वाराणसी, चन्दौली सहित अन्य जनपदों से मोटरसाइकिलों की चोरी करके बेचने का काम करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर अभियुक्त हरिशंकर मिश्रा के घर के पास से चोरी की 03 मोटरसाइकिले, अभियुक्त राजा बाबू के घर के पास से चोरी की 02 मोटरसाइकिले तथा अन्य सहयोगी के घर के पास से चोरी की 03 मोटरसाइकिले बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु 03अ0सं0-126/2022 धारा 411,414 भादवि बनाम हरिशंकर मिश्रा आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया है, नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1-हरिशंकर मिश्रा उर्फ बब्ल मिश्रा पुत्र स्व0आदया प्रसाद मिश्रा निवासी दुर्वासा का पूरा थाना अदलहाट मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष

2-राजा बाबू बिन्द पुत्र भोला बिन्द निवासी सुरहां थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर उम्र करीब-26 वर्ष

### आपराधिक इतिहास—

#### अभियुक्त हरिशंकर मिश्रा उर्फ बब्ल मिश्रा —

- 1-मु0अ0सं0-04/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अदलहाट, मीरजापुर।
- 2-मु0अ0सं0-07/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अदलहाट, मीरजापुर।
- 3-मु0अ0सं0-142/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अदलहाट, मीरजापुर।
- 4-मु0अ0सं0-75/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा, मीरजापुर।
- 5-मु0अ0सं0-125/2022 धारा 379भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर।
- 6-मु0अ0सं0-126/2022 धारा 411,414 भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर।

#### अभियुक्त राजा बाबू पुत्र भोला बिन्द —

- 1-मु0अ0सं0-59/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना अहरौरा, मीरजापुर।
- 2-मु0अ0सं0-125/2022 धारा 379भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर।
- 3-मु0अ0सं0-126/2022 धारा 411,414 भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर।

### विवरण बरामदगी—

#### 1-चोरी की 10 अदद मोटरसाइकिल

#### क्र.सं. वाहन का नाम वाहन संख्या इंजन नम्बर चेचिस नम्बर

1	हिरो सुपर स्प्लेण्डर	UP 65 CV 7598	JA05EGHGJ4442	MVLJAR038HGJ04450
2	हिरो होण्डा पैंशन प्रो	UP 65 AS 3704	HA10EDAGA26437	MVLHA10ERAGA56051
3	यमहा एफ-2	UP 67 Y 6784	2/C1003142	ME121CO1X82002874

4	हिरो होण्डा पेशन प्रो	UP 65 AM 8885	HA10E09GE20563	MVLHA10EN9GE14171
5	हिरो होण्डा पेशन प्रो	UP 65 AN 7584	HA10ED9GE34308	MVLNA10ER9GE27146
6	हिरो एचएफ डिलक्स	UP 63 AC 8769	HA11ENHHI02747	MVLHAR235HHJ02029
7	टीवीएस अपाचे बिना नम्बर	0E4BH134336	MV634KE40H2B31160	
8	टीवीएस स्टार सिटी बिना नम्बर		CF1GE1043430	MD625CF14E3G10111
9	हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर		HA10EV8GM02219	MDLHA10EL8GM02779
10	यमहाएसएलआर	UP 70 BP 8110	54B3025936	ME154V035B2025923

2- दो अदद चोरी की एन्ड्रायल मोबाइल.

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—**

थानाध्यक्ष अहरौरा संजय कुमार सिंह मय टीम ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 10 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

